



# इंडियन रेलवे फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) (सी आई एन : L65910DL1986GOI026363)

पंजीकृत कार्यालय : रूम नं. 1316 & 1349, तीसरी मंजिल, दि अशोक, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव 50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021  
दूरभाष : 011-24100385

## INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise) (CIN : L65910DL1986GOI026363)

Regd. Office : Room Nos. 1316 – 1349, 3rd Floor, The Ashok, Diplomatic Enclave:- 50-B, Chanakyapuri, New Delhi-110021  
Phone : 011-24100385, E-mail : info@irfc.nic.in, Website : www.irfc.nic.in

No: IRFC/SE/2021-22/47

21st October, 2021

<b>National Stock Exchange of India Limited</b> Listing department, Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400 051  <b>Scip Symbol: IRFC</b>	<b>BSE Limited</b> Listing Dept / Dept of Corporate Services, PJ Towers, Dalal Street, Mumbai -400 001  <b>Scip Code: 543257</b>
--	---

**Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, please find enclosed Newspaper Clipping of the advertisement published in English and regional (Hindi) newspaper(s).

This is submitted for your information and record.

Thanking You,

For Indian Railway Finance Corporation Limited

(Vijay Babul Shirode)  
Company Secretary & Compliance Officer



Enclosure: As Above

10 FINANCIAL EXPRESS

**TELANGANA STATE POWER GENERATION CORPORATION LIMITED**  
WIDYUT SOUDHA: HYDERABAD - 500 082

**KTPS-VII Stage - Procurement of 11 KV & 33 KV Power Cables for KTPS-VII Stage**  
Palancha, Bhadradi Kothagudem Dist. Value of the works: ₹ 17,00,00,000. Scheduled Open & Closing Date: 07.10.2021 at 18:00 Hrs & 08.11.2021 at 15:30 Hrs.

**KTPS-VIII Stage - Collection of floating fish particles (Goniospheres) from Northern Ash Pond-I & II for the year 2021-22 at KTPS-VII Stage, Palancha, Bhadradi Kothagudem Dist. through e-auction. Inspection start date: 11.10.2021 at 27.10.2021 @ 13:00 Hrs. E-auction Opening & Closing date: 28.10.2021 16:30 Hrs & 01.11.2021 @ 13:00 Hrs.**

**RTS-B - Transportation of 3.50 Lakh MT of coal by Road from Godavari/Krishna Mines of M/s. Singareni Collieries Company Ltd. to R.T.S. Coal Yard for a period of one year. Scheduled Open & Closing Date: 20.10.2021 at 18:00 Hrs & 05.11.2021 at 17:00 Hrs.**

For further Details - www.tsgeco.in & https://tender.telangana.gov.in

**INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.**  
(A Govt. of India Enterprise)  
Regd. Office: Room No. 1316 - 1349, 3rd Floor, Hotel The Ashoka Emporium, 50-8, Channarayana, New Delhi 110021  
Phone: +91 11 2610 2401  
Website: www.irfc.nic.in

**NOTICE**  
Pursuant to regulation 47, read with regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as amended (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 the annual general meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 11th November, 2021, inter alia, to consider and approve, Unaudited Financial Results of the Company and other financial statements (Annex) Cash Flow Statement for the period ended 30th September, 2021 and Balance Sheet as on that date. The Board will also consider declaration of Interim Dividend to the shareholders of the Company for Financial Year 2021-22.

Further, in accordance with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the "Record Date" for determining the entitlement of the shareholders to the payment of Interim Dividend will be Thursday, the 11th November, 2021, subject to the approval of Interim Dividend by the Board of Directors.

This information is also available on the website of Company at www.irfc.nic.in and on the website of the Stock Exchanges i.e., www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Indian Railway Finance Corporation Limited  
Sd/-  
Vijay Shrivastava  
Company Secretary

Place: New Delhi  
Date: 20.10.2021

**E TENDER NOTICE**  
**SOLAPUR CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**  
Address : Niyojan Bhavan Building, Saat Rasta, Solapur - 413 003

**E-TENDER NOTICE NO : 19 Date : 20/10/2021**

Solapur City Development Corporation Limited (SCDCL) is invite e-tender from eligible bidders through e-tendering portal for **Appointment of Contractor for Renovation, Restoration & Redevelopment of India Bhawan Solapur**, under Smart Cities Mission in Solapur City.

- Tender release date is 10:00 am on 20/10/2021
- Online Pre bid Meeting is at 04:00 PM of 28/10/2021 through Google Meet / Zoom App at Solapur City Development Corporation Limited, Saat Rasta, Solapur.
- Bid Submission date up to 03:00 PM of 13/11/2021.
- The Technical Bid Opening date is 04:00 PM of 15/11/2021.
- The tender can be downloaded from www.mahatenders.gov.in
- The bidders should quote exclusive of GST.
- All rights of acceptance and rejection of tender is reserved by SCDCL.

Tender ID : 2021\_SMC\_729923\_1 SD/-  
Chief Executive Officer  
Solapur City Development Corporation Limited

**GlobalSpace**

**INFORMATION REGARDING THE 11th ANNUAL GENERAL MEETING OF GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VCO) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)**

NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made thereunder and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Annual General Meeting (AGM) of the members of **GlobalSpace Technologies Limited** will be held as and when decided by the Board through video conferencing facility without any physical presence of members. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

The AGM Notice will also be available on the website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the website of the company at www.global-space.in Please note that no hard copies of the notice will be made available to the Members.

**Manner to register/update email addresses:**  
Members who have not registered their e-mail address with the Company or their Depository Participant are requested to register their e-mail address in the following manner:

- **For Physical Shareholders**  
Send Scanned copy of the following documents by email to: bharat.raipurohit@linkintime.co.in keeping cc to: cs@global-space.in  
a. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address  
b. Self-attested scanned copy of the PAN card, and  
c. Self-attested scanned copy of any document (such as Aadhaar card, Driving License, Election Identity card, Passport) in support of the address of the Members as registered with the Company.
- **For Electronic Shareholders**  
The shareholders holding shares in electronic mode are also requested to register/ update their email address, Permanent Account Number (PAN) and Bank Account details with the Depository Participant where their respective demat accounts are maintained.

The remote e-voting as well as e-voting at the AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on the e-voting system to be provided by the Company. The details of the e-voting system and process of e-voting will be specified in the Notice of the AGM. The members who are holding shares in physical mode and who have not registered their email ID, can access the details of e-voting system and vote on the e-voting system as per the procedure which will be mentioned in the AGM Notice.

This newspaper intimation will also be available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com

For and on behalf of GlobalSpace Technologies Limited  
SD/-  
Swati Anand  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: Navi Mumbai  
Date: October 21, 2021

**SHIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED**

**PUBLIC NOTICE**

This is to inform our customers and public at large that our **Bareilly Branch** located at 1st Floor, 211-211/2, Civil Line, Near Hotel Shrihaskar, Narima Colony Station Road, Bareilly - 243001, will shift to 1st Floor, M. R. Plaza, Opp. M. J. P. Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh - 243001, from 15th February, 2022.

The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

**REGIONAL BUSINESS HEAD**

**SHIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED**

**PUBLIC NOTICE**

This is to inform our customers and public at large that our **Lucknow Zonal Office** located at Suraj Deep complex, E Block, Floor I, Jopling Road, Near Dainik Jagan Chauraha, Lucknow, Uttar Pradesh - 226001, will shift to 1st Floor, No. 1 & 6 Ram Raghu Plaza, Khairi Road, Agra, Uttar Pradesh - 282002, from 15th February, 2022.

The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

**REGIONAL BUSINESS HEAD**

**SHIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED**

**PUBLIC NOTICE**

This is to inform our customers and public at large that our **Omurga Branch** located at Floor I, Near Shineri Hotel, Main Road, N.H.S. Omurga, Osmanabad, Maharashtra- 413606, will shift to 1st Floor, Badve Complex, Infront of Shaji Market, Bhaji Market Road, Omurga, Osmanabad, Maharashtra- 413606, from 15th February, 2022.

The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

**REGIONAL BUSINESS HEAD**

**JSW ISPAT SPECIAL PRODUCTS LIMITED**

(FORMERLY KNOWN AS MONNET ISPAT AND ENERGY LIMITED)

Registered Office : JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051 (Maharashtra) Tel. No. +91 22 42861000; E-mail: scs\_ispl@jsw.com Website: www.aisjsw.com; CIN: L02710MH1999PLC35352

**EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2021**  
(Rupees in crores except per share data)

Sl. No.	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Quarter ended September 30, 2021	Half Year ended 30.09.2021	Quarter ended September 30, 2021	Half Year ended 30.09.2021
1	Total income from operations (including other income)	1442.34	2911.06	957.84	1442.34
2	Net (Loss) / Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(36.85)	26.47	(62.06)	(36.88)
3	Net (Loss) / Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(36.85)	26.47	(62.06)	(36.88)
4	Net (Loss) / Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(36.85)	26.47	(62.06)	(36.88)
5	Total Comprehensive (Loss)/Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(39.19)	25.12	(61.47)	(39.23)
6	Equity Share Capital	489.55	489.55	469.55	489.55
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	387.98	387.98	387.98	387.60
8	Earnings Per Share (Face value of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic / Diluted	(0.78) / (0.78)	0.58 / 0.58	(1.32) / (1.32)	(0.79) / (0.79)

Notes:  
a) The above is an extract of the detailed format for the quarter and half year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results including Notes thereto are available on the website of the Company (www.aisjsw.com) and Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).  
b) The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 18 October, 2021 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 19 October, 2021. The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the results for the quarter and half year ended 30 September, 2021.

For JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat and Energy Limited)  
Thirukoteswaram Mohan Babu  
Whole-time Director  
DIN: 09169018

Date: 19-October-2021  
Place: Raigarh

**IMPORTANT**

Whistle blower is a term used for acceptance of advertising copy, it is not possible to verify the contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with an advertiser or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**PUBLIC ANNOUNCEMENT**  
**FEDDERS ELECTRIC AND ENGINEERING LIMITED**  
Regd. Off: 6 and 6/1 UPSIDC Industrial Area Sikandrabad, Bulandshahr Uttar Pradesh- 203205  
(CIN: L29299UP1957PLC021118)

In matter of Fedders Electric and Engineering Limited, pursuant to approval of the resolution plan submitted by IM+ Capitals Limited vide Hon'ble NCLT, Allahabad Bench order dated October 6, 2021 and further, in accordance with the terms of the resolution plan and Regulation 37(7) & 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; October 29, 2021 has been fixed as the record date for the purpose of capital reduction and consolidation of the issued, subscribed and paid-up capital of the Company. Thereby, from the record date, the existing issued, subscribed and paid-up capital of ₹ 3,39,69,700 would be extinguished to nil.

SD/-  
Ashok Kumar Gulla  
Chairperson, Monitoring Committee  
(Fedders Electric And Engineering Limited)

Date: 21.10.2021  
Place: Noida

**AXIS FINANCE LIMITED**  
CIN: U65921MH1995PLC212675  
Regd. Office: Axis House, C-2, Vidya International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400025  
Tel: 022-43255004, Email: info@axisfinance.in, Website: www.axisfinance.co.in

**FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2021**  
(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ending	Quarter ending	Year ended
		30 September, 2021	30 September, 2020	31 March 2021
1	Total Income from Operations	33,954.06	24,914.48	1,02,916.47
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	9,639.77	5,982.39	26,232.81
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	9,639.77	5,982.39	26,232.81
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	7,192.27	4,441.75	19,462.02
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	7,191.16	4,445.69	19,464.18
6	Paid up Equity Share Capital	48,225.00	48,225.00	48,225.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,10,154.78	83,095.26	96,022.05
8	Securities Premium Account	28,217.80	22,217.80	28,217.80
9	Net Worth	1,49,789.13	1,21,186.83	1,33,053.05
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	11,52,294.71	6,98,413.34	9,38,368.79
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	7.28	5.32	6.88
13	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	1.49	0.92	4.04
14	Diluted	1.49	0.92	4.04
15	Capital Redemption Reserve	-	-	-
16	Debitum Redemption Reserve*	-	-	-
17	Debit Service Coverage Ratio*	-	-	-
18	Interest Service Coverage Ratio*	-	-	-

\* Not required to be disclosed as per Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015  
\* Not Applicable

Notes:  
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of quarterly/annual financial results are available on the websites of the BSE Limited (www.bseindia.com) and Axis Finance Limited (www.axisfinance.in).  
2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 19, 2021 and are reviewed/audited by the statutory auditor, as required under the Regulations.  
3. For the items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com.  
4. The financial year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform to the current period/year figures.

For and on behalf of Board of Directors  
AXIS FINANCE LIMITED  
Bipin Kumar Saraf  
Managing Director & CEO  
DIN: 06416704

Date: Mumbai  
Date: 19 October 2021

**Reliance**  
Industrial Infrastructure Limited

Regd. Office: NKM International House, 5th Floor, 178 Backbay Reclamation, Behind LIC Yogakshema Building, Babubhai Chinai Road, Mumbai - 400 020  
Phone: 022-4477 9000; Fax: 022-4477 9052; E-mail: investor\_relations@ril.in  
CIN: L63000MH1989PLC049019

**Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter / Half Year Ended September 30, 2021**  
(₹ in lakh, except per share data)

Particulars	Quarter ended September 30, 2021	Half Year ended September 30, 2021	Quarter ended September 30, 2020
	Total income from operations (net)	1,674.13	3,240.04
Net Profit from ordinary activities before tax	319.99	625.24	241.03
Net Profit from ordinary activities after tax	259.39	495.53	219.20
Total Comprehensive Income after tax	1,567.54	2,290.11	1,964.61
Equity Share Capital	1,510.00	1,510.00	1,510.00
Other Equity (reserves) excluding Revaluation reserves *	-	-	-
Earnings Per Share (Face value of ₹ 10/- each) (for continuing operations) (Not Annualised)	1.69	3.28	1.45
Basic	1.69	3.28	1.45
Diluted	1.69	3.28	1.45

\* Other Equity (reserves) excluding Revaluation reserves for the year ended March 31, 2021 was ₹ 39,685.62 lakh

Notes:  
1. The Audit Committee has reviewed the above results and the Board of Directors has approved the above results and its release at their respective meetings held on October 20, 2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out the Limited Review of the aforesaid Results.  
Additional Information on Unaudited Standalone Financial Results is as follows:  
(₹ in lakh)

Particulars	Quarter ended September 30, 2021	Half Year ended September 30, 2021	Quarter ended September 30, 2020
	Total income from operations (net)	1,674.13	3,240.04
Net Profit from ordinary activities before tax	258.74	502.74	196.50
Net Profit from ordinary activities after tax	194.14	373.03	174.67
Total Comprehensive Income after tax	1,598.29	2,167.61	1,928.28

2. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter / Half Year ended September 30, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter / Half Year ended September 30, 2021 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website www.ril.in.

For Reliance Industrial Infrastructure Limited  
SD/-  
Dileep V. Dherai  
Executive Director

Date: Mumbai  
Date : October 20, 2021

www.ril.in

**MUTUAL FUNDS**  
Safal Mitt

**Notice For Declaration Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal**

NAV as on 18-10-2021 (per unit)

Sl. No.	Scheme Name	Option/Plan	Nav per Unit (₹)
1	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-IV (1125 Days)	Direct Plan - Annual Payout of IDCW option	10.4293
2	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-IV (1125 Days)	Direct Plan - Flexi Payout of IDCW option	12.8568
3	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-IV (1125 Days)	Direct Plan - Maturity Payout of IDCW option	12.8572
4	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-IV (1125 Days)	Direct Plan - Flexi Payout of IDCW option	10.1122
5	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-IV (1125 Days)	Regular Plan - Annual Payout of IDCW option	10.4307
6	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-IV (1125 Days)	Regular Plan - Flexi Payout of IDCW option	12.7301
7	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-IV (1125 Days)	Regular Plan - Maturity Payout of IDCW option	12.7300
8	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-IV (1125 Days)	Regular Plan - Quarterly Payout of IDCW option	10.1074
9	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-IV (1135 Days)	Direct Plan - Maturity Payout of IDCW option	12.7853
10	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-IV (1135 Days)	Regular Plan - Quarterly Payout of IDCW option	10.1766
11	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-V (1107 Days)	Direct Plan - Annual Payout of IDCW option	10.2946
12	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-V (1107 Days)	Direct Plan - Maturity Payout of IDCW option	12.3048
13	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-V (1107 Days)	Direct Plan - Quarterly Payout of IDCW option	10.0660
14	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-V (1107 Days)	Regular Plan - Annual Payout of IDCW option	10.2735
15	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-V (1107 Days)	Regular Plan - Maturity Payout of IDCW option	12.1756
16	UTI - Fixed Term Income Fund Series XXX-V (1107 Days)	Regular Plan - Quarterly Payout of IDCW option	10.0480

Face Value per unit in all the above Scheme/plan is ₹ 10. Record date for all the above mentioned Scheme/plan will be **Tuesday, October 26, 2021**. Gross income distribution cum capital withdrawal - Entire distributable surplus as on record date (i.e. maturity date) for above mentioned Scheme/plan. Distribution of above dividend is subject to the availability of distributable surplus as on record date. Income distribution cum capital withdrawal payment to the investor will be lower to the extent of statutory levy (if applicable). Pursuant to payment of dividend, the NAV of the income distribution cum capital withdrawal options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the income distribution cum capital withdrawal option whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date for each income distribution cum capital withdrawal distribution shall be entitled to receive the income distribution cum capital withdrawal so distributed.

Mumbai - October 20, 2021 Toll Free No.: 1800 266 1230 Website: www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gri' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.in, CIN: L65991MH2002PLC137867.

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFIN/NSC certified UTI Mutual Fund Distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

**uti**  
UTI Mutual Fund

Hag, ek behtar zindagi ka.

**SHIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED**

**PUBLIC NOTICE**

This is to inform our customers and public at large that our **Pichore Branch** located at 1st Floor, In front of Corporate Bank, College Chauraha, The-Pichore, District Shivpur Madhya Pradesh - 473995, will shift to Ground Floor, Ward No. 10, Jhansi Road, Infront of P.O. Karera, Shivpur, Madhya Pradesh - 473660, from 15th February, 2022.

The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

**REGIONAL BUSINESS HEAD**

**NOTICE**

Notice is hereby given in pursuance to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 2015, 2015 (the "Act") read with relevant rules thereunder, other accounting principles generally accepted in India and regulations issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

1. The Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and Six Months ended 30 September 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 20 October, 2021. The statutory auditors have carried out review of these Consolidated and Standalone Financial Results and have issued an unmodified report on these results.

2. The Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results, including the carrying amount of these assets will be reviewed.

3. The Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and Six Months ended 30 September 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 20 October, 2021. The statutory auditors have carried out review of these Consolidated and Standalone Financial Results and have issued an unmodified report on these results.

4. The Group has considered all possible effects that may result from COVID-19 in the preparation of these Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results including the recoverability of carrying amounts of financial and non-financial assets. In developing these assumptions relating to all possible future uncertainties in the global economic conditions because of COVID-19, the Group has, at the date of approval of these Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results, used internal and external sources of information and expects that the carrying amount of these assets will be recovered.

SD/-  
(S. KRITHIKA)  
COMPANY SECRETARY

Date: 20-10-2021

**MOSCHIP TECHNOLOGIES LIMITED**  
Regd Office: 7th Floor, 'My Home Twizl', Hyderabad Knowledge City, Hyderabad - 500081  
Ph: 040-66229292 Fax: 040-66229393  
CIN: L31909TG1999PLC032184

**UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2021**  
All amounts in Rupees lakhs, except for EPS

Particulars	Three Months ended		Six months ended		Year ended
	30-Sep-21 Unaudited	30-Jun-21 Unaudited	30-Sep-20 Unaudited	30-Sep-20 Unaudited	
Total Income	3,929.53	3,591.84	2,523.40	7,521.38	10,735.15
Net profit / (loss) for the period / year (before tax and exceptional items)	160.97	172.34	(342.64)	333.32	(657.15)
Net profit / (loss) for the period / year (before tax and after exceptional items)	160.97	172.34	(342.64)	333.32	(657.15)
Net profit / (loss) for the period / year (after tax and exceptional items)	160.36	172.34	(343.27)	332.71	(657.78)
Total comprehensive income / (loss) for the period / year (after tax and exceptional items)	123.43	171.21	(412.60)	294.64	(749.76)
Equity Share Capital	3,173.82	3,157.42	3,155.88	3,173.82	3,155.88
Other equity (excluding revaluation reserve) as shown in the Balance Sheet of the previous year	2,637.30	2,343.55	2,336.95	2,637.30	2,336.95
Earnings Per Share (EPS)	0.10	0.11	(0.22)	0.21	(0.42)
Basic earnings per share of Rs. 2/- each	0.10	0.11	(0.22)	0.21	(0.42)
Diluted earnings per share of Rs.2/-each	0.10	0.10	(0.20)	0.20	(0.40)

**Key numbers of Standalone Financial Results**

Particulars	Three Months ended		Six months ended		Year ended
	30-Sep-21 Unaudited	30-Jun-21 Unaudited	30-Sep-20 Unaudited	30-Sep-20 Unaudited	
Total Income	2,993.09	2,765.56	2,032.97	5,758.65	8,784.58
Net profit / (loss) for the period / year (Before tax and after exceptional items)	132.88	60.80	(167.03)	193.68	(207.97)
Net profit / (loss) for the period / year (After tax and exceptional items)	132.88	60.80	(167.03)	193.68	(207.97)

1. The above is an extract of the Unaudited Quarterly and Six Months Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results are available at Company's website www.moschip.com and BSE websites, scrip code 532407.

2. The Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with relevant rules thereunder, other accounting principles generally accepted in India and regulations issued by the

